




# Area division by Medians (माध्यिकां द्वारा क्षेत्रफल विभाजन):

$\frac{3}{4} \pi \theta \Gamma^2$




$$\alpha + \beta = \gamma + \delta$$


$$\gamma + \delta = \alpha + \beta$$



$$1 : 2$$
  

$$1 : 4$$





6. In  $\triangle ABC$ , O is the centroid and AD, BE and CF are three medians and the area of  $\triangle AOE = 15\text{cm}^2$ , then the area of quadrilateral BDOF is

त्रिभुज  $\triangle ABC$  में, O केन्द्रक हैं और AD, BE तथा CF तीनों मध्यिकाएं हैं।  $\triangle AOE$  का क्षेत्रफल =  $15\text{cm}^2$  है तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल?

- a)  $15 \text{ cm}^2$
- ~~b)  $30 \text{ cm}^2$~~
- c)  $45 \text{ cm}^2$
- d)  $90 \text{ cm}^2$


coaching center

$$AOF = 15 \longrightarrow \begin{matrix} ABC \\ 90 \end{matrix}$$


$$BFEC = ?$$

$$AFE = \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{4} \times 90$$



coaching center





$$ABC \xrightarrow{x \frac{1}{2}} BEC$$

$a+b$

7. The vertex A of  $\triangle ABC$  is joined to a point D on BC. If E is the midpoint of AD then  $\text{ar}(\triangle BEC) = ?$   
 त्रिभुज  $\triangle ABC$  का शीर्ष बिंदु A भुजा BC पर बिंदु D पर जोड़ा जाता है। अगर E, AD का मध्य बिंदु है तो  $(\triangle BEC)$  का क्षेत्रफल पता करो।

- ~~a)  $\frac{1}{2} \text{area}(\triangle ABC)$~~       b)  $\frac{1}{3} \text{area}(\triangle ABC)$   
 c)  $\frac{1}{4} \text{area}(\triangle ABC)$       d)  $\frac{1}{6} \text{area} (\triangle ABC)$






$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

8. In the given figure, PQR is an equilateral triangle with side as 12cm S and T are the mid points of the sides PQ and PR respectively. What is the area (in  $cm^2$ ) of the shaded region?

दी गई आकृति में, PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12cm है। S तथा T, क्रमशः भुजा PQ तथा PR के मध्य बिंदु हैं। छायांकित का क्षेत्रफल ( $cm^2$  में) क्या है?


- a)  $10\sqrt{3}$
- b)  $12\sqrt{3}$
- c)  $9\sqrt{3}$
- d)  $14\sqrt{3}$



9. In the right angle triangle  $\angle C = 90^\circ$ , AE and BD are two medians of a triangle ABC meeting at F. the ratio of the area of  $\triangle ABF$  and the quadrilateral FDCE is:

किसी समकोण त्रिभुज में  $\angle C = 90^\circ$  है, AE और BD किसी त्रिभुज ABC की दो मध्यिकायें हैं जो बिंदु F पर मिलते हैं।  $\triangle ABF$  के क्षेत्रफल और चतुर्भुज FDCE के क्षेत्रफल का अनुपात:

- ~~a) 1 : 1~~      b) 1 : 2  
 c) 2 : 1      d) 2 : 3




10.  $\triangle XYZ$  is a triangle. If the median  $ZL$  and  $YM$  intersect each other at  $G$ , then Area of  $\triangle GLM$  : Area of  $\triangle XYZ$  is:

$\triangle XYZ$  एक त्रिभुज है। यदि माध्यिकाएं  $ZL$  और  $YM$  एक-दूसरे को बिंदु  $G$  पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो  $\triangle GLM$  का क्षेत्रफल :  $\triangle XYZ$  का क्षेत्रफल का मान जात कीजिए।

- a) 1: 14
- ~~b) 1: 12~~
- c) 1: 11
- d) 1: 10

coaching center




II. In  $\triangle ABC$ , D and E are the mid points of sides  $BC$  and  $AC$ , respectively. If  $AD = 10.8\text{ cm}$ ,  $BE = 14.4\text{ cm}$  and  $AD$  and  $BE$  intersect at G at a right angle, then the area (in  $\text{cm}^2$ ) of  $\triangle ABC$  is:

$\triangle ABC$  में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि  $AD = 10.8\text{ cm}$ ,  $BE = 14.4\text{ cm}$  और  $AD$  और  $BE$  समकोण G पर प्रतिष्ठेदित करते हैं, तो  $\triangle ABC$  का क्षेत्रफल ( $\text{cm}^2$  में) ज्ञात कीजिए।

- a) 80.64
- b) 103.68
- c) 56.76
- d) 53.76


## Median special cases:

Sum of all medians < Sum of all sides



$$5BC^2 = 4(CM^2 + BL^2)$$

Medians



$$5BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Sides

12. In  $\Delta ABC$ ,  $\angle A = 90^\circ$ . If  $BL$  and  $CM$  are the medians, then :


$\Delta ABC$  में,  $\angle A = 90^\circ$  है, यदि  $BL$  और  $CM$  मध्यिका है, तो:

a)  $4(BL^2 + CM^2) = 3BC^2$

b)  ~~$4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$~~


c)  $3(BL^2 + CM^2) = 4BC^2$

d)  $5(BL^2 + CM^2) = 4BC^2$



$$5 BC^2 = 4 (BL^2 + CM^2)$$

coaching center




13. In a triangle  $ABC$ ,  $BD$  &  $CE$  are two medians which intersect each other at right angle.  $AB = 22, AC = 19$ , find  $BC = ?$

त्रिभुज  $ABC$  में, दो माध्यिका  $BD$  और  $CE$  एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि  $AB = 22, AC = 19$  तब  $BC$  की लंबाई क्या होगी?

- a) 13      b) 14      c) 15      d) 11

$$\begin{aligned} 5 BC^2 &= 484 + 361 \\ &= \cancel{845} \quad 169 \end{aligned}$$

*coaching center*



$$5 \times 25 = \cancel{4} \left( \frac{45}{\cancel{4}} + 4CM^2 \right)$$

$$\frac{25}{2} = CM$$

14. In  $\triangle ABC$ , right angled at  $A$ ,  $BC$  is  $5\text{cm}$ .  $BL$  and  $CM$  are medians . If  $BL = \frac{3\sqrt{5}}{2}\text{ cm}$  , then  $CM$  will be -

$\triangle ABC$  में, जो  $A$  पर समकोणीय है,  $BC = 5$  सेमी. है. दो माध्यिकाएँ  $BL$  और  $CM$  हैं। तदनुसार, यदि  $BL = \frac{3\sqrt{5}}{2}\text{ cm}$  सेमी. है, तो  $CM$  की लम्बाई कितनी होगी ?

- ~~a)  $2\sqrt{5}\text{ cm}$~~       b)  $5\sqrt{2}\text{ cm}$   
 c)  $10\sqrt{2}\text{ cm}$       d)  $4\sqrt{5}\text{ cm}$

15. BD and CE are the medians of  $\triangle ABC$ , right angled at A. If  $CE = \frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ cm}$ ,  $BC = 10 \text{ cm}$ , then the length of BD is:

**BD और CE,  $\triangle ABC$  को माध्यिकाएं हैं जो कि A पर समकोण है। यदि  $CE = \frac{5\sqrt{13}}{2} \text{ cm}$ ,  $BC = 10 \text{ cm}$  है, तो BD की लंबाई ज्ञात करें।**


a)  $3\sqrt{7} \text{ cm}$

c)  $\sqrt{13} \text{ cm}$

b)  $\frac{5}{2}\sqrt{7} \text{ cm}$


d)  $3\sqrt{5} \text{ cm}$

$25 \times 20$   
 $25, 20 \text{ बाटे}$



$$5 \times 10 = \sqrt{\left(\frac{25 \times 13}{4} + 4BD^2\right)}$$

$$\frac{5\sqrt{13}}{2} \leftarrow \frac{175}{4} = BD^2$$



$$5QR^2 = PQ^2 + PR^2 = 2PQ^2$$

$$\frac{5}{2} = \frac{PQ^2}{QR^2} = \left(\frac{PQ}{QR}\right)^2$$

16. PQR is a triangle such that  $PQ = PR$ . RS and QT are the median to the sides PQ and PR respectively. If the medians RS and QT intersect at right angle, then what is the value of  $\left(\frac{PQ}{QR}\right)^2$ ?

PQR इस प्रकार एक त्रिभुज है कि  $PQ = PR$  है। RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर मधियकाएं हैं? यदि मधियकाएं RS तथा QT समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो


$\left(\frac{PQ}{QR}\right)^2$  का मान क्या है?

a)  $\frac{3}{2}$

b)  $\frac{5}{2}$

c) 2

d) None of the these




17. In  $\triangle PQR$ ,  $\angle P = 90^\circ$ . S and T are the mid points of sides  $PR$  and  $PQ$ , respectively.

What is the value of  $\frac{RQ^2}{QS^2+RT^2}$ ?

$\triangle PQR$ , में  $\angle P = 90^\circ$  है। S और T क्रमशः PR और PQ के मध्य बिंदु हैं।  $\frac{RQ^2}{QS^2+RT^2}$  का मान जात कीजिये।

- a)  $\frac{1}{2}$
- b)  $\frac{2}{3}$
- c)  $\frac{3}{4}$
- d)  ~~$\frac{4}{5}$~~

coaching center



18. In a  $\triangle ABC$ ,  $\angle A = 90^\circ$ , If  $BM$  and  $CN$  are two median,  $\frac{BM^2 + CN^2}{BC^2}$  is equal to:

$\triangle ABC$  में,  $\angle A = 90^\circ$ , यदि  $BM$  और  $CN$  दो माध्यिकाएं हैं, तो  $\frac{BM^2 + CN^2}{BC^2}$  किसके बराबर है?

a)  $\frac{3}{5}$

b)  $\frac{4}{5}$

c)  $\frac{5}{4}$

d)  $\frac{3}{4}$

coaching center


19. In  $\Delta ABC$ ,  $\angle B = 90^\circ$ , AD and CE are the medians drawn from A and C, respectively.

(Hw)

If  $AC = 10\text{ cm}$  and  $AD = \sqrt{55}\text{ cm}$ , then the length of CE is:

$\Delta ABC$  में,  $\angle B = 90^\circ$  है। AD और CE क्रमशः बिन्दुओं A और C से खींची गई माध्यिकाएँ हैं। यदि  $AC = 10\text{ cm}$  और  $AD = \sqrt{55}\text{ cm}$  है, तो CE की लंबाई ज्ञात करें।

- a)  $2\sqrt{15}\text{ cm}$
- b)  $\sqrt{70}\text{ cm}$
- c)  $\sqrt{66}\text{ cm}$
- d)  $5\sqrt{3}\text{ cm}$




$$5 \times 10 = \sqrt{(CP^2 + 5^2)}$$

$$75 = CP^2$$

20.  $\triangle ABC$  is circumscribed by a circle such that  $AC$  is the diameter.  $AQ$  and  $CP$  are medians of the triangle. If  $PQ = 5 \text{ cm}$  and  $AQ = 2\sqrt{13} \text{ cm}$  then find the length of  $CP$ .

$\triangle ABC$  एक वृत द्वारा इस प्रकार घिरी हुई है कि  $AC$  व्यास है.  $AQ$  और  $CP$  त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं. अगर  $PQ = 5 \text{ cm}$  और  $AQ = 2\sqrt{13} \text{ cm}$  है तो  $CP$  की लम्बाई बताओ.

- a)  $8 \text{ cm}$
- b)  $\sqrt{73} \text{ cm}$
- c)  $\sqrt{69} \text{ cm}$
- d)  $9 \text{ cm}$



$$5AC^2 = 4(AB^2 + CP^2)$$


$$AB^2 + CP^2 = AC^2 + PQ^2$$

$$PQ = \frac{1}{2} AC$$

$$PQ^2 = \frac{1}{4} AC^2$$


$$\begin{aligned} CP^2 + AQ^2 &= AC^2 + PQ^2 \\ &= 5PQ^2 \\ &= \frac{5}{4} AC^2 \end{aligned}$$

Special Case



$$XY = \frac{PR}{2}$$

$$XY^2 = \frac{PR^2}{4}$$




$$SPR^2 = 4(RX^2 + PY^2)$$

$$RX^2 + PY^2 = PR^2 + XY^2$$

$$= \frac{5}{4} PR^2$$

$$= 5XY^2$$



21.  $PQR$  is a triangle right angled at  $Q$ , if  $X$  and  $Y$  are the mid-points of the sides  $PQ$  and  $QR$  respectively, then which one of the following is not correct?

$PQR$ , कोण  $Q$  पर समकोण त्रिभुज है, अगर  $X$  और  $Y$  भुजाओं  $PQ$  और  $QR$  के मध्य बिंदु हैं तो निम्न में से कौनसा सही नहीं हैं?

- a)  $RX^2 + PY^2 = 5XY^2$
- b)  $RX^2 + PY^2 = XY^2 + PR^2$
- c)  $4(RX^2 + PY^2) = 5PR^2$
- d)  $RX^2 + PY^2 = 3(PQ^2 + QR^2)$